

19/01/2023

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001
BSE Scrip Code: [511628]

Sub: Submission of Newspaper Publication(s).

Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir /Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith, copies of extracts of Newspaper advertisements published in all editions of Financial Express (English), and Delhi NCR edition of Jansatta (Hindi) on Thursday, 19<sup>th</sup> January, 2023, regarding dispatch of Notice of Extra-Ordinary General Meeting along with the Explanatory Statement and e-voting instructions, scheduled to be held on Saturday, 11<sup>th</sup> February, 2022 through VC/OAVM.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you

For IM+ Capitals Limited

(Sakshi Goel)

Company Secretary & Compliance Officer

**FINANCIAL EXPRESS** 

### BHARATPE CO-FOUNDER KOLADIYA'S PLEA

## HC issues summons to Ashneer Grover

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 18

THE DELHI HIGH Court on Wednesday issued a summons to payment app BharatPe's former MD Ashneer Grover, on a suit by the company's cofounder seeking to reclaim the shares he transferred to his erstwhile colleague.

Justice Prateek Jalan noted Grover's counsel's submission that he will file a reply to the suit and not create any thirdparty rights to the 16,110 shares in question.

"Defendant no. 1 (Grover) is bound down to this statement and is directed to file an undertaking in this regard within a week from today. Reply to the application be filed in four weeks and rejoinder in two weeks thereafter," the high court said.

It listed the suit for further hearing on March 16.

The high court was hearing a suit filed by BharatPe cofounder Bhavik Koladiya which stated that he had sold to Grover his 1,600 shares, whose total value was around ₹88 lakh, but no money was paid to him.

He said the shares have now

close, records

THE 16TH EDITION of the

biennial India Auto Expo held

at the Expo Mart, Greater

Noida, came to an end on

Wednesday after recording a

footfall of 636,743, which was

a growth of 4.63% compared

nessed over 82 unveilings and

launches. The Auto Expo 2023

marks another milestone in

terms of exhibition area, grow-

ing from 52,000 square

metres to 58,000 square

metres, with 114 exhibitors, of

which 48 were original equip-

While the event saw partici-

pation from Maruti Suzuki, Tata

Motors, Hyundai, Kia, Toyota

and MG Motor to name a few,

many big brands like Mahindra

& Mahindra, Renault, Nissan,

Volkswagen, BMW, Hero Moto-

Corp, Bajaj Auto and TVS were

part of the group that decided to

one concept electric car, the eVX,

and two production-ready cars,

the Jimny and the Fronx. Tata

Motors showcased the Sierra

concept EV, the electric Harrier

and the concept Avinya.

Hyundai showcased the Ionig 5

while its sister brand showcased

Expo 2023 was green mobility.

Besides the showcasing of elec-

tric vehicles, several companies

displayed hydrogen and CNG-

powered vehicles as well.

**Persistent** 

Systems net

IT COMPANY PERSISTENT

Systems on Wednesday

reported 34.9% year-on-year

growth in net profit to

₹237.95 crore for the Decem-

ber quarter, driven by several

large deals across industries

and service lines. Persistent's

revenues rose by 32.8% y-o-y

to ₹2,169.36 crore. The com-

pany's Q3FY23 margins were

at 15.3%, compared to 14% in

Sandeep Kalra, CEO and

executive director, said this was

the 11th sequential quarter of

revenue growth, fuelled by con-

tinued investments in innova-

tive technologies and differen-

tiated digital engineering

expertise. The firm won several

large deals across industries and

service lines, driving 20%

sequential growth in total con-

tract value (TCV) bookings, Kalra

said.Orderbookingforthequar-

ter ended December was at

\$440.2 million in TCV and at

\$326.3 million in annual con-

tract value terms.

the year-ago period.

rises 34.9%

The larger theme of the Auto

the Kia EV9 and KA4.

Maruti Suzuki showcased

skip the event.

ment manufacturers.

The week-long event wit-

636K visitors

SWARAJ BAGGONKAR

Mumbai, January 18

to the 2020 edition.

Auto Expo

draws to a



Former BharatPe MD Ashneer Grover

gone up to over 16,000 and the title need not pass to Grover. Koladiya said he was asking for his goods, which he had given to be returned.

Koladiya, in an application, sought an interim injunction restraining Grover from creating any third-party rights in the shares, which are subject matter of the suit.

However, Grover's counsel alleged that the documents shown to the court were false and fabricated and that his wife had paid ₹8 crore to Koladiya's wife.

As the court asked why Koladiya gave away his shares,

advocate Mukul Rohatgi, appearing for Koladiya, said he is a gullible

In June last year, Koladiya, who ran the fintech firm's technology and product divisions, had stepped down.

person.

Koladiya and Shashvat Nakrani founded BharatPe in July 2017, although the firm was not incorporated till March 2018. Grover had joined the company in June 2018 and resigned in March 2022.

Last year, the court had issued summonses to Grover, his wife and other defendants on another suit filed by the fintech firm, BharatPe, which has accused the couple of misappropriating funds. Grover had resigned from the company while his wife was removed from her post.

In the suit, besides seeking to restrain the defendants from making defamatory statements, the company has also sought direction for payment of over ₹88.67 crore along with interest towards recovery of alleged misappropriated funds and damages caused to the reputation of the firm.

### Vedanta to acquire Meenakshi Energy for ₹1,440 crore

**RAJAT MISHRA** New Delhi, January 18

**VEDANTA IS SET** to acquire debt-laden Meenakshi Energy for ₹1,440 crore, the company said in an exchange filing on January 18, after it emerged as the successful bidder.

Vedanta will pay ₹312 crore upfront while the balance of ₹1,128 crore will be paid in the form of secured, unlisted nonconvertible debentures (NCDs) issued by Meenakshi Energy. The consideration will mature in five equal installments over a period of five years, the company said.

Meenakshi Energy has a 1,000-MW coal-based power plant in Nellore, Andhra Pradesh. It was admitted under insolvency resolution and the proceedings commenced on November 7, 2019. Meenakshi Energy, incorporated in 1996, has two phases. Phase I is complete and Phase II is pending. Its commercial operation date is yet to be declared.

According to the exchange filing, Vedanta currently envisages to operate 1,000 MW of Meenakshi Energy as an independent power producer (IPP) to cater to the needs of the market, by entering into short or medium-term power purchase agreement (PPA) and by supplying power to merchants. The acquisition would enhance the group's portfolio in power, the company said.

The company also added that the approval of the National Company Law Tri-



#### THE DEAL

- Vedanta will pay ₹312 crore upfront. while the balance of ₹1,128 crore will be paid in the form of secured, unlisted NCDs issued by Meenakshi Energy
- Meenakshi Energy has a 1,000-MW coal-based power plant in Nellore, Andhra Pradesh
- It was admitted under insolvency resolution; the proceedings started on November 7, 2019

bunal (NCLT) is pending. Meenakshi Energy's revenue stood at ₹201 crore in FY22 and ₹95 crore in FY21.

Reportedly, in October 2022, the National Asset Reconstruction Company of India (NARCL), the government-promoted bad bank, gave the lenders of Meenakshi Energy a ₹900-crore binding offer to acquire its debt.

# Heating appliances sales soar as mercury dips

SHUBHRA TANDON New Delhi, January 18

**SEVERE WINTERS IN** northern India and a drop in temperatures in other parts of the country have led to an increase in demand for heating appliances. The demand for room heaters andwatergeysers has risen 33% across cities during the three months of October-December

2022 compared to the same

period last year. "Over the past three months, as we have stepped into the winterseason, the demand for heating appliances has grown by a third among customers across the country and particularly in the north. We are witnessing a greater predisposition among consumers to buy smart heating appliances. This is an extension

of the larger trend of greater

acceptance of appliances

among customers to make their

lives easier," said Hari Kumar, vice-president (large appliances), Flipkart.

Apart from low temperatures, this year the market is also flush with products loaded with smart features, technology and different styles, which is adding to the demand momentum.

"In water geysers, we have have seen the requirement shifting from the traditional cylindrical shape to squareshape models and the expectation of durable appliances. Most of our models are equipped with the 'DuraAce Tank' which has a marine-grade glass line coating, making the geysers durable for over ten vears," said Ravindra Singh Negi, COO (consumer products), Bajaj Electricals.

In November, Bajaj launched a new range of geysers that come with a digital pre-set feature for time and temperature with feature touch buttons, dig-

#### **DEMAND HEATS UP**



■ The demand for room heaters and water geysers has risen 33% across cities during the three months of October-December 2022 compared to the same period last year

■ This year, the market is flush with products with smart features, technology and different styles

ital display and remote-controlled operation, and some models also have a child safety mode. The company said that these new geysers are equipped with multiple safety systems, suitable for high-rise buildings, magnesium anode and more.

Avneet Singh Gambhir, joint

vice-president, Havells India, said the firm has seen a robust growth in the water heater category over last few years, which has led the company to augment its manufacturing capacity. "In order to match everincreasing demand, we have recently augmented our capac-

ity to make 1.4 million water heaters in a year. We have doubled our manufacturing capacity within a span of seven years," he said. Havells also launched a new range of water heaters under Otto and Orizzonte, targeted towards premium end of

the consumer segment. Salil Kappoor, head of home appliances, Orient Electric, said that the growth in sales is uniform across all distribution channels of small stores and those in tier-2 and 3 cities, as well as from large stores in metro cities and an equally good growth coming in from online

According to Flipkart, the demand for heating appliances has increased across the country, including tier-2 and 3 cities and beyond, such as Arrah, Darbhanga, Gaya, Ghaziabad Lucknow, Motihari, Muzaffarpur and Patna.

#### **Utkarsh Small Finance Bank**

Aapki Ummeed Ka Khaata

(A Scheduled Commercial Bank)

Registered Office: Utkarsh Tower, NH - 31 (Airport Road), Sehmalpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi, U.P - 221 105.

### Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement ( Security ) Interest Act,

2002 and in excise of powers conferred under 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, the Authorised Officer issued a Demand Notice on the dates noted against each Account as mentioned hereinafter, calling them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said Notice The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the under noted borrowers and the public in general that

the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sec 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned against each Account The borrower in particular, and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the

properties will be subject to the charge of UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED for the amounts and interests thereon mentioned against each account herein below The attention of the borrowers detailed hereunder is invited to the provisions of subsection (8) of the section 13 of the Act, in

respect of time available, to redeem the secured assets.

No.	the Branch	Account	Guarantor (Owner of the Property)	Demand Notice	Possession Notice	as on the date of Demand Notice
1	Allahabad	1352060000002157	Rajoo Yadav (Borrower) & Rajoo Kannaujia (Co-Borrower)	04-07-2022	13-01-2023	₹. 272105/-
the	property con	sisting of HN 158, N	ed Property (all the part & parcel o layibasti Kydganj, Pargana & 1 Document No 2150, Dated 04/07	fehsil- Sadar, Distt-	Allahabad, Re	egistered Book no 1.
			sq. mt.Bounded as: East: Part of			

Jaiswal, North: House of Mishri Lal Nishad, South: House of Pramod Yadav 2 Allahabad 1352060000002449 Kartikev Kumar (Borrower) & 04-07-2022 13-01-2023 Kusum Devi (Co-Borrower) Description of the Charged / Mortgaged Property (all the part & parcel of the property consisting of): All that part and parcel of

the property consisting of HN.- Arazi No.- 61, Mauja- Hindupur Pargana- Arail & Tehsil- Karchhana, Distt- Allahabad, By virtue of Bahi no. - 1, Zild No. 7679, Pages No. - 33 to 48, Srl No. - 7620, Dated 25/04/2022 in the office of Tehsil- Karchhana, Allahabad, UP. Area Measuring – 228 sq. mts. Bounded: East: House Plot Phoolwati. West: Remaining part of arazi. North: Hindupur Basariya link road. South: Boundary of Hospital 3 Allahabad 1352060000002467 04-07-2022 13-01-2023 Shiv Babu (Borrower) &

Description of the Charged / Mortgaged Property (all the part & parcel of the property consisting of): All that part and parcel of

the property consisting of Arazi No.-1, Basahi, Pargana- Arail, Tehsil- Karchhana, Allahabad. One plot- Bahi No.-1, Zild No.- 2135, Pages No.- 371-386., Srl. - 5637 on dated 12/11/2010, Mauja- Basahi, Pargana- Arail, Tehsil- Karchhana, Allahabad Bounded as: East: Plot of Pram Chandra Keshrwani. West: House Of Abdul. North: Bheerpur- Bashi Link Road. South: Land Seller.

Date: 19/01/2023 Place: Allahabad

Virendra Vikram Singh (Authorized Officer) Utkarsh Small Finance Bank Ltd.

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Retaill Asset Centre: 1st Floor. G-4/5, B. Sector-4. Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010. Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380000

Where as the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having

failed to repay the amount, notice is hereby given and to the public in general that the undersigned below in exercise of powers confer on him under Said Rules. The borrower's mentioned here in a cautioned not to be deal with the said property at the mortgage of <b>AXIS BANK LTD</b> . for an amount charges, etc. on the amount mentioned against exercise (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to respect of time available to redeem the secured as	has taken Possession of the proper section 13(4) of the said Act read above in particular and the public in any dealings with the said proper together with further interest incider ach amount herein below. The Borre to provisions of sub-section(8) of section	erty described here with the rule8 of the general are here erty will be subject that expenses, cospower(s)/Co-Borrow
Name of the Borrowers/	Description of the	Amt. Due as per Demand notice Date Demand notice
Guarantors/Address	Mortgaged Property	
		Possession Date
Pramod Kumar (Borrower) S/o Sh. Jagdish Prasad, R/o-1, H No 1 Vikas Bhawan Road Gayatri Nagar Obari, Near Triloki Cold Storge, Barabanki, U.P-225003, R/o-2, C/o Sangarsh Total Solution Pvt. Ltd., F-3 Hotel Saurya Palace, Near MLA Guest House Matiyari	115.50 sq.mt, situated at 5 / 68, Type-D, Viraj Khand, Gomtinagar,	as on 25.08.2022 + interest & other expense
Chinhat, Lucknow, U.P-226019, R/o-3, 5 / 68,	South- Plot Number 5 / 69	24.08.2022
Type D, Viraj Khand, Gomtinagar, Lucknow-226010, Smt. Annpurna (Co-Borrower) W/o Sh Pramod Kumar, R/o-1, H No 1 Vikas Bhawan		16.01.2023

Road Gayatri Nagar Obari, Near Triloki Cold Storge, Barabanki, Uttar Pradesh- 225003, R/o-2, 5 / 68, Type D, Viraj Khand, Gomtinagar,

Lucknow 226010

Kazi Mohammad Zahid (Borrower) S/o Sh. Abu Land/property admeasuring Area Bagur, R/o-1, Flat No 19-03-01 Third Floor Tower No 19. Metro City, Paper Mill, Lucknow-226006, R/o-2, C/o Blue Enterprises, 101, Orchid Apartment Mall Avenue, Lucknow-226001, Smt. Tarannum Sidiqui (Co-Borrower) W/o Sh. Kazi Mohammad Zahid, R/o- Flat No 19-03-01 Third Floor Tower No 19, Metro City,

226006, which is in the name of Smt. Tarannum, Bounded as:North East- Open space and internal roads on Ground floor, North West Common Entrance Lobby, South Paper Mill, Lucknow 226006 Prateek Bajpai (Borrower) S/o Sh. Rakesh Land/property admeasuring Area-

East- Open space and internal roads on ground floor, South West Open space and internal roads or Ground Floor. Bajpai, R/o-1, H. No. 138 Vijay Nagar, Near Pani 1800 Sq.Ft, situated at H. No. 560 Ki Tanki, Kanpur Road Lucknow 226023, R/o-2 -V/215 Built on Plot Number C-C/o Prateek Bajpai & Associates, Ist Floor Vinod Plaza Plot No-1659, Sector-i Aashiana Colony Lucknow-226012, Preeti Bajpai (Co-Borrower) W/o Sh. Rakesh Bajpai, R/o-1, H.no.138 Vijay

176.51 sq.mt, situated at Flat No

19-03-01 Third Floor Tower No 19

Metro City, Paper Mill, Lucknow-

138 Vijay Nagar, Kanpur Road Ward Chitra Gupt Nagar, Lucknow 226023. Bounded as: East- 40 Ft Nagar, Kanpur Road Lucknow 226023, R/o-1 Wide Road, West-10 ft Wide Lane C/o New Awadh Public School, Javed Market North- Plot Number C-139, South-Mohan Road, Near Railway Corssing, Alam Plot Number C-137 Nagar Lucknow-226017, Prenay Bajpai S/o Sh Rakesh Bajpai, R/o- H.no.138 Vijay Nagar Pooja Singh W/o Sh. Sanjay Pratap Singh, R/o-

Land/property admeasuring Area-Rs. 73,99,519/-187.95 sq.mt, situated at Plot as on Number D-176. Situated at Block-14.06.2022 + interest & other expenses

Rs. 47,57,045/-

as on

18.10.2022

+ interest &

other expenses

18.10.2022

16.01.2023

Rs. 90,96,197/-

Rs. 13,05,092/-

as on

19.10.2022

+ interest &

other expenses

19.10.2022

16.01.2023

D. South City Raebareli Road Pooja Singh W/o Sh. Sanjay Pratap Singh, R/o-Lucknow, 226025, Which is in the Mohaddinagar Chauraha Tehsil-Kunda Name of Smt. Pooja Singh. 16.06.2022 Pratapgarh, U.P 230201, R/o-3, Plot Number **Bounded as:** East - Plot Number 16.01.2023 D-176, Situated At Block-D, South City Raebarel D-166, West - Road, North - Plot Road, Lucknow, 226025 Sanjay Pratap Singh Number D-177, South- Plot S/o Sh. Hari Singh, R/o-1, Village - Balipur, Post & Tehsil-Kunda, Pratapgarh, U.P- 230201, Number D-175

Authorized Officer, Axis Bank Ltd

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged to the secured creditor, the physical possession of the which has been taken by the Authorized officer of Punjab & Sind Bank (secured creditor), will be sold or

"As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis. Date and time of e-auction **Property Inspection Date Last Date Of EMD Submission** 30.01.2023 between 11.30 AM to 2.00 PM **04.02.2023,** 11:30 A.M to 01:30 P.M 03.02.2023, upto 5.00 P.M.

M/s. Singhal Strips Ltd. Director cum Guarantor BanwariLal Prem Chand Singhal Guarantors / Mortgagors

Shanker Lal Singhal Prem Chand Singhal Prem Chand Singhal Smt. Bimla Devi W/o Prem Chand Singhal (Deceased, through Legal Heirs)

EM of commercial building constructed over plot no. 64, 65 & 66 Khasra no.624 Mpl. No.440/1, Bhola Nath

EM of commercial building constructed over plot no. 64, 65 & 66 Khasra no.624 Mpl. No.440/1, Bhola Nath Nagar, Shahadra, Delhi 110 054 registered vide registration No.309 in additional Book no.1, volume no.3013 on pages 119-124 on 26.02.98 having plot area of 100.00 sq. yards at Ground Floor out of total plot area of 663.00 sq.yards in the name of Anita Singhal W/o Shankar Lal Singhal & Shankar lal Singhal S/o P.C Singhal EM of commercial building constructed over plot no. 64, 65 & 66 Khasra no.624 Mpl. No.440/1, Bhola Nath Nagar, Shahadra, Delhi 110 054 registered vide registration No.300 in additional Book no.1, volume no.3013

on pages 72-77 on 24.02.98 having plot area of 100.00 sq. yards at Ground Floor out of total plot area of 663.00 sq.yards in the name of Anita Singhal W/o Shankar Lal Singhal. EM of commercial building constructed over plot no. 64, 65 & 66 with roof rights measuring 167.22 Sq. Mts sale, please refer to the link provided in: out of Khasra no.624 Mpl. No.440/1, Bhola Nath Nagar, Shahadra, Delhi 110 054 registered vide registration 1. https://www.bankeauctions.com. No.19455 in Book no.1, volume no.6759 on pages 121-130 on 20.09.2012 having area of 200.00 sq. yards at 2. https://punjabandsindbank.co.in Ground Floor in the name of Bimla Devi W/o P.C Singhal. "Under Physical Possession" DATE: 18.01.2023, PLACE: NEW DELHI

**AUTHORISED OFFICER, PUNJAB & SIND BANK** 

E-mail: imcapitalscompliances@gmail.com Website: www.imcapitals.com NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF IM+ CAPITALS LIMITED REGARDING THE 01/2022-23 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND EVOTING INSTRUCTIONS

**IM+ CAPITALS LIMITED** 

[CIN: L74140DL1991PLC340407]

Regd. Office: 72, Ground Floor, World Trade Center, Babar Road,

Connaught Place, New Delhi-110008, Phone: +91 9810266747,

NOTICE is hereby given that the 01/2022-23 Extra-Ordinary General Meeting ("EGM of members of IM+ Capitals Limited ("Company") will be held on Saturday, 11th February, 2023 at 03:00 P.M.(IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio isual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the ompanies Act, 2013 ("Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circulars and Notifications issued by the Ministr of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

Members will be able to attend the EGM through VC / OAVM. Members participating n the EGM through the VC / OAVM facility shall be deemed to be present at EGM and their presence shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the

collectively referred to as "Relevant Circulars"), to transact the businesses as set

n compliance with the Relevant Circulars, the electronic copies of Notice of the EGM Members of the Company whose email addresses are registered with the Company, Depository Participant(s) as on the cut-off date i.e., Friday, 13th January, 2023. The Notice and other documents are also made available on the Company's website mcapitals.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited seindia.com and the e-voting website of Linkintime India Private Limited

M/s Link Intime India Private Limited, a SEBI registered Registrar and Transfer Agent RTA) is appointed to provide a platform for convening the meeting through Video onferencing; to handle and supervise the entire process of holding the meeting prough Video Conferencing, e-voting, and processing of data relating to the meeting and voting, etc. Further, members can join and participate in the EGM hrough VC/OAVM facility only. The instructions for joining and manner of articipation in the EGM are provided in the Notice, Manner of registering /updating email addresses

Members holding shares in physical form who have not registered their ema addresses can register their email address by sending request to the Company in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms by mail to

Members holding shares in electronic mode are requested to register /update

Manner of registering /updating email addresses:

ny person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of ie EGM and holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. Friday, 13th anuary, 2023, may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the EGM, which is available on Company's website <u>www.imcapitals.com</u> and -voting website of Linkintime India Private Limited (LIIPL) a nstavote.linkintime.co.in. Such members may cast their votes using the e-voting

structions, in the manner specified by the Company in the Notice of EGM.

nstruction for remote e-voting and e-voting during EGM: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretaria Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretarie: of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the EGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of Linkintime India Private Limited (LIIPL) on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM ("Insta Poll") and members attending the EGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EGM through The Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited (LIIPI as the agency to provide e-voting facility ) Information and instructions including details of user id and password relating to

credentials should be used for attending the EGM through VC / OAVM The manner of remote e-voting and voting by Insta Poll by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM and is also available on the website of the Company: www.imcapitals.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Linkintime India Private Limited (LIIPL) at instavote.linkintime.co.in. he remote e-voting facility will be available during the following voting period:

ommencement of remote e-voting: 09:00 A.M. (IST) on 08th February, 2023

e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login

: 05:00 P.M. (IST) on 10th February, 2023 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the emote e-voting module shall be forthwith disabled by Linkintime India Private .imited (LIIPL) upon expiry of the aforesaid period. he members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the EGM. The voting rights

of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up share capital of he Company as on cut-off date i.e., Friday 13th January, 2023: n case any query or grievance pertaining to remote e-voting before the EGM, e oting during the EGM and joining the EGM through VC/OAVM, Members may refe he FAQs and Instavote e-voting manual available at Instavote-Linkintime or write an e-mail to <u>enotices@linkintime.co.in</u> or call on 022-49186000 Ms. Chetna Bhola (FCS A41283) Associate Partner of M/s. Chetna Bhola & Associates

Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the rocess for remote e-Voting and e-Voting at the EGM in a fair and transparent nanner. The results of e-voting along with scrutinizer's report will be uploaded or ne company's website <u>www.imcapitals.com</u> and will be communicated to BSE imited, where securities of the company are listed. Members are requested to read carefully all the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote nrough remote e-voting or through e-voting (Insta Poll) at the EGM.

For IM+ Capitals Limited Date: 18.01.2023

Sakshi Goel Company Secretary & Compliance Officer

੧ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ **E-AUCTION** पंजाब एण्ड सिंध बैंक **Punjab & Sind Bank** (Sale through (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking) E-Auction only) Where service is a way of life Punjab & Sind Bank Branch - SAMVERT (D0744), 4th Floor, Bank House, 21, Rajendra Place, New Delhi APPENDIX-IV-A] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY E-Auction Sale Notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Minimum Reserve | Demand Notice **Name of Borrower Description of Properties** U/s. 13(2)

Price (Amt. in Lacs) EMD Amount Present O/S **Bid Increase Amount** (Secured debt ) 09.10.2018 for Rs. 1300.00 Lacs Residential property no. C 10/11, B.M. Rohtagi Apartments, 1 Ram Kishore Road, Civil Lines (Behind IP Rs.45,43,17,043/ College), Delhi 110054 having area 415.15 sq. yards. (347.12 sq. meters). It is in the name of Bimla Devi W/o Rs. 130.00 Lacs Sh. Prem Chand Singhal S/o Prem Chand Singhal through sale deed registered as document no. 8815 addl.book 1 Volume 2785 at pages Rs. 0.25 Lacs Rs. 81,97,53,229/as on 31.12.2022 185-195 dated 29.12.2008. "Under Physical Possession" Sh. Shanker Lal Singhal S/o EM of commercial building constructed over plot no. 64, 65 & 66 Khasra no.624 Mpl. No.440/1, Bhola Nath future interest and Rs. 900.00 Lacs other expenses Nagar, Shahadra, Delhi 110 054 registered vide registration No.299 in additional Book no.1, volume no.3013 Rs. 90.00 Lacs w.e.f. 01.01.2023. on pages 65-71 on 24.02.98 having plot area of 163.00 sq. yards at Ground Floor out of total plot area of Rs. 0.25 Lacs Smt. Anita Singhal W/o 663.00 sq.yards in the name of Bimla Devi W/o P.C Singhal

**EMD Submission A/c Details** Sh. Shanker Lal Singhal S/o Nagar, Shahadra, Delhi 110 054 registered vide registration No.310 in additional Book no.1, volume no.3013 A/C Name- PSB HO SAMVERT on pages 125-130 on 26.02.98 having plot area of 100.00 sq. yards at Ground Floor out of total plot area of A/C No. 06061100068553 Sh. Ajay Kumar Singhal S/o 663.00 sq.yards in the name of Ajay Kumar Singhal S/o P.C Singhal. IFSC Code - PSIB0000606 Branch Name - Rajendra Place, New Delhi-110008 **Authorized officer-**

> Ms. Manju Sharma Mob- 9463956448 For detailed terms and conditions of the

Date- 19.01.2023

Kanpur Road Luckn ow 226023

1, Villege Mohaddinagar, Post-Bhadri, Mohaddi

Nagar Chauraha, Near Awadheshwarnath

Dham, Tehsil Kunda, Pratapgarh, U.P-230201

2, C/o M/s Servto Bhadra Traders, Villege

R/o-2, Plot Number D-176, Situated At Block-d,

South City Raebareli Road, Lucknow, 226025

New Delhi

financialexp.epapr.in

—FE BUREAU

शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण के लिए नोटिस

माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

उद्देश्य से उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।

ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

www.imcapitals.com पर उपलब्ध है)

रूप से दे सकते हैं ('रिमोट ई–वोटिंग')।

(एलआईआईपीएल) की सेवाएं ली हैं।

पोल के जरिए ईजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

कंपनी की प्रदत्त शेयर पंजी में उनके शेयरों के अनपात में होंगे।

022-49186000 पर कॉल करें।

दिनांक: 18.01.2023

स्थानः नई दिल्ली

ईमेल पतों को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

नोटिस में दिए गए हैं।

#### [सीआईएन : L74140DL1991PLC340407] पंजीकृत कार्यालय: 72, भूतल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : +919810266747, ई-मेल : imcapitalscompliances@gmail.com

वेबसाइट : www.imcapitals.com वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा माध्यम से होने वार्ल 01/2022-23 असाधारण आम बैठक और वोटिंग निर्देशों के संबंध में आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड व

एतद्वारा सचना दी जाती है कि ईजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम, 201.

('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा सामान्य परिपत्रों औ<sub>र</sub>

अधिसूचनाओं के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), 2015 (''सूचीबद्धता दायित्व'') तथ

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सामृहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'' सन्दर्भित) के अनुपालन

आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 01/2022-23 असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') शनिवार

2 फरवरी, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') एवं अन्य ऑडियो विजुअल

सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग ले सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में भा

लेने वाले सदस्यों को ईजीएम में उपस्थित माना जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम व

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां व्याख्यात्मक विवरण और उनके साध संलग्न किये जाने वाले अन्य दस्तावेज, कंपनी के उन सभी सदस्यों को बुधवार 18 जनवरी, 2023 को केवल ईमेर द्वारा भेजा गया है जिनके ईमेल पते कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 13 जनवरी, 2023 को कंपनी/डिपॉजिटर्र

नोटिस और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यान

बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग

सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वीडियं

कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने की पूर्र

प्रक्रिया को संभालने और पर्यवेक्षण, ई–मतदान, और बैठक तथा मतदान आदि से संबंधित डेटा का प्रसंस्करण करने वे लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम

से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ईजीएम में शामिल होने और भाग लेने के तरीके के निर्देश

क) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे निर्धारित फॉर्म

ख) इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से सभी संचार प्रार

कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और ई-वोटिंग के लिए कट-

ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 13 जनवरी, 2023 को शेयर रखता है, वह ईजीएम की सूचना में प्रदान की गयी प्रक्रिय

के अनुसार युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com औ लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की वेबसाइट Linkintime India Private Limited

(LIIPL) की ई-वोटिंग वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य ईजीएम के नोटिर

क) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108

भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 और यथासंशोधित सेर्ब (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ('ई-वोटिंग') द्वारा ईजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने वे अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(एलआईआईपीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके नीचे दी गई तारीखों पर अपना वोट दुरस्थ

जाएगी और ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे इंस्ट

ख) इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा ईजीएम ('इंस्टा पोल') पर भी उपलब्ध कराः

ग) कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

घ) ई–वोटिंग से संबंधित यूजर आईडी और पासवर्ड के विवरण सहित सूचना और निर्देश सदस्यों को ई–मेल के माध्यम

से भेज दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल क

ङ) डिमैटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल द्वारा वोटिंग का तरीका ईजीएम की सचना र

प्रदान किया गया है और कम्पनी की वेबसाइट www.imcapitals.com पर और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट

यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www,bseindia.com पर तथा लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति फ

लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को तरंत निष्क्रिय क

जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ईजीएम में दोबार

वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट ऑफ तिथि यानी शुक्रवार 13 जनवरी, 2023 कं

ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग, ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य इंस्टावोट-लिंकइनटाइम पर उपलब्ध एफएक्यू औ

इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल करें य

चेतना भोला एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव की सुश्री चेतना भोला (एफसीएस ए41283) को ईजीएम में निष्पक्ष औ

पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए को संवीक्षक के रूप में नियुत्त किया गया है। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग के परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.imcapitals.com प अपलोड किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड को सुचित किए जाएंगे, जहां कंपनी की प्रतिभृतियां सुचीबद्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने वे निर्देश. ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग (इंस्टा पोल) के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें

(एलआईआईपीएल) की वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध।

रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत 08 फरवरी, 2023 को 09:00 बजे पूर्वा (भा.मा.स.)

रेमोट ई-वोटिंग की समाप्ति 10 फरवरी. 2023 को शाम 05:00 बजे अप. (भा.मा.स.)

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अविध के दौरान उपलब्ध होगी:

करने के लिए अपने संबंधित डीपी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें।

में कंपनी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ई-वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं।

ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

आईएसआर-1 में कंपनी को अनुरोध भेजकर और अन्य प्रासंगिक रूपों को imcapitalscompliances@

gmail.com पर मेल द्वारा अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं। (फॉर्म आईएसऑर-1 कंपनी की वेबसाइट

सूचकांक 390 अंक चढ़ कर फिर 61 हजार अंक के पार

मुंबई, 18 जनवरी (भाषा)।

घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सचकांक 390 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। मुख्य रूप से सूचकांक में मजबृत हिस्सेदारी रखने वाले एचडीएफर्सी बैंक और एचडीएफसी लि के शेयरों में लिवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से बाजार में तेजी

कारोबारियों के अनुसार, डालर के मुकाबले रुपए में तेजी और वैश्विक स्तर पर कुल मिला कर सकारात्मक रुख से बाजार लाभ में रहा।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सचकांक 390.02 अंक यानी 0.64 फीसद चढ कर 61.045.74 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 112.05 अंक यानी 0.62 फीसद की बढत के साथ 18,165.35 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में टाटा स्टील सबसे ज्यादा 2.72 फीसद मजबूत हुआ। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लि, भारती एयरटेल, एनटीपीसी और आइटीसी प्रमुख रूप से लाभ में रहे। सूचकांक में जो लाभ हुआ, उसमें करीब आधा योगदान एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिका रहा। वहीं दूसरी तरफ, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक. नेस्ले इंडिया. बजाज फिनसर्व. भारतीय

स्टेट बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.65 फीसद तक नुकसान में रहे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में कमजोर प्रदर्शन के बाद भारतीय बाजार में पिछले दो-तीन कारोबारी सत्रों से तेजी का रुख दिख रहा है। एफआइआइ की लिवाली में मामूली सुधार और घरेलू निवेश में तेजी से रुख को समर्थन मिल रहा है।

## रुपया 44 पैसे की तेजी के साथ 81.25 प्रति डालर पर

मुंबई, 18 जनवरी (भाषा)।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 44 पैसे की तेजी के साथ 81.25 (अस्थायी) प्रति डालर पर बंद हआ। विदेशों में डालर के कमजोर होने और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के रुख से रुपए में यह बढ़त रही। कारोबारी सुत्रों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने रुपए के लाभ पर कुछ अंकुश

लगा दिया।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डालर के मुकाबले 81.80 पर कमजोर खला. लेकिन दिन के कारोबार में इस गिरावट पर अंकुश लगा और कारोबार के अंत में रुपया अपने पिछले बंद भाव से 44 पैसे बढ कर 81.25 प्रति डालर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपए ने दिन के उच्च स्तर 81.25 प्रति डालर और 81.82 प्रति डालर के निचले स्तर को छुआ।

### सोना 105 रुपए टूटा, चांदी में 52 रुपए की तेजी

नई दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 105 रुपए की गिरावट के साथ 56,526 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 56,631 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत 52 रुपए की तेजी के साथ 69.694 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक विश्लेषक ने कहा कि दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 105 रुपए की गिरावट के साथ 56,526 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। विश्लेषकों ने कहा कि मंगलवार को डालर सचकांक के 0.18 फीसद मजबूत होने से सोने की कीमतों पर दबाव रहा। अमेरिकी बान्ड आय में भी हालिया निम्न स्तर से सुधार आया। विदेशी बाजारों में सोना लाभ के साथ 1,910 डालर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी लाभ के साथ 24.16 डालर प्रति औंस पर थी।

### इंडियन बैंक

🔼 इलाहाबाद

Indian Bank

ALLAHABAD

जोनल कार्यालयः दिल्ली सेंट्रल, 17, संसद मार्ग, प्रथम तल, इलाहाबाद बैंक भवन, नई दिल्ली-110001 कॉपोरेट कार्यालयः 254-260, AVVAI शनमूगम सलाई, रोयापेटा चेन्नई-600014

जनसता

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्तियों के बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा, प्रतिभूत लेनदार इंडियन बँक (पूर्व में – इलाहाबाद बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 07.02.2023 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी मोड के माध्यम से बिक्री हेतु संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया हैं:

कर्जदार(रों) का नाम	गारंटीदाता / बंधककर्ता का नाम	अचल / चल सम्पत्तियों का विवरण	भौतिक / प्रतिकात्मक कब्जा	12.01.2023 के अनुरूप प्रत्याभूत ऋण की राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर जमा राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(viii)
मैसर्स अटलांटिक लीजिंग लिमिटेड श्रीमती सानिल सचदेवा (निदेशक) श्री अमन सचदेवा (निदेशक) श्री अंकुश सचदेवा (निदेशक) शाखाः आजादपुर		सम्पत्ति नं, 334, खसरा नं, 11 में शामिल, अब नं, 93/2, गाँव आजादपुर के 1908—1909 के लाल डोरा के अंतर्गत, नई दिल्ली—110033 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अंकुश सचदेव पुत्र स्व. श्री हरीओम सचदेव के नाम पर है।	भौतिक कब्जा	रु. 98.35 लाख + ब्याज एवं बैंक का बकाया के वसूलीकरण तक अन्य खर्चे	₹. 110.93 लाख ₹. 11.10 लाख ₹. 0.20 लाख
श्री कृष्ण मोहन तिवारी शाखाः पीएसटी	श्रीमती इंदु कृष्ण तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन तिवारी गारंटरः मैसर्स साई कंसल्टेंट्स	एक्स-।।, गाजियाबाद, गाँव पसाँदा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी, में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती इंदु कृष्ण तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन तिवारी के नाम पर है।	सांकेतिक कब्जा	रु. 17.88 लाख + ब्याज एवं बैंक का बकाया के वसूलीकरण तक अन्य खर्चे	₹. 14.45 लाख ₹. 1.50 लाख ₹. 0.10 लाख
	का नाम (ii)  मैसर्स अटलाटिक लीजिंग लिमिटेड श्रीमती सानिल सचदेवा (निदेशक) श्री अंकुश सचदेवा (निदेशक) शाखाः आजादपुर श्रीमती इंदु कृष्ण तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन तिवारी शाखाः पीएसटी	का नाम  (ii)  मैसर्स अटलांटिक लीजिंग वंधककर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः भ्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः भ्रीमती सानिल सचदेवा (गारंटर) श्री अमन सचदेवा (गारंटर) श्री कृष्ण मोहन तिवारी गली श्री कृष्ण मोहन तिवारी गली श्री कृष्ण मोहन तिवारी गारंटरः मैसर्स साई कंसल्टेंट्स	(ii) (iii) (iv)  मैसर्स अटलांटिक लीजिंग लिमेटेड अंधककर्ता: श्री अंकुश सचदेवा (बंधककर्ता/गारंटर) गारंटर श्रीमती सानिल सचदेवा (निदेशक) श्री अनन सचदेवा (निदेशक) श्री अनन सचदेवा (निदेशक) श्री अनन सचदेवा (निदेशक) श्री अनन सचदेवा (निदेशक) श्री अमन सचदेवा (गारंटर) श्री कृष्ण मोहन तिवारी के नाम पर है।	वंधककर्ता का नाम (ii) (iii) (v) (v)  मैसर्स अटलांटिक लीजिंग विध्वकर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः श्री अंकुश सचदेवा (वंधककर्ताः वारंटर) गारंटर श्रीमती सानिल सचदेवा (वंधककर्ताः वारंटर) गारंटर श्रीमती सानिल सचदेवा (वंधककर्ताः वारंटर) वारंटर श्रीमती सानिल सचदेवा (वंधककर्ताः वारंटर) श्री अमन सचदेवा (विदेशक) श्री अंकुश सचदेवा (विदेशक) श्री अमन सचदेवा (वारंटर) वारंटर श्रीमती इंदु कृष्ण तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन तिवारी वारंटर: मैसर्स साई कंसल्टेंट्स सम्पित श्रीमती इंदु कृष्ण तिवारी पत्नी श्री कृष्ण मोहन तिवारी वारंटर: मैसर्स साई कंसल्टेंट्स वारंटर: मैसर्स साई कंसल्टेंटस वारंटर है।	का नाम  (ii)  (iii)  (iii)  (iii)  (iv)  (v)  (

सभी सम्पत्तियाँ हेतु न्यूनतम बोली वृद्धि राशि अंकित है। अधिक जानकारी के लिए, इच्छक बोलीदाता निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं • उक्त क्र.सं. 1 में अंकित सम्पत्ति हेतू - श्री रवि सिंह -(मो: 9621223309) उक्त क्र.सं. 2 में अंकित सम्पत्ति हेतु — श्री प्रदीप कुमार —(मो: 9670793135)

07-02-2023 को पूर्वाह 11.00 बजे से अपीह 04.00 बजे तक साथ में प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई नीलामी सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट 'www.mstcecommerce.com) पर जाएं। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क नं. 033-22901004 और सेवा प्रदाताओं हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकरण की स्थिति के लिए कृपया ibapiop@mstcecommerce.com संपर्क करें। और ईएमडी स्थिति के लिए कुपया ibapifin@mstcecommerce.com से संपर्क करें।

संपत्ति के विवरण और संपत्ति और नीलामी नियमों और शर्तों हेतु कृपया https://ibapi.in देखें और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नं. 18001025026' और 011-41106131 से संपर्क करें

देनांक : 18.01.2023, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

यूनियन बैंक 🔰 Union Bank

सहारनपुर मुख्य शाखा, रेलवे रोड, सहारनपुर, उ.प्र. 247001

ई-नीलामी की

[faun-8(1)]कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (द्वितीय) 2002 (2002 के ऑर्ड. 3) के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सहारनपुर मुख्य शाखा, रेलवे रोड सहारनपुर, उ.प्र.-247001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना अर्थात् संदर्भः आरओएमः सीआरएलडीः 207:08 तिथि 09.05.2008 जारी कर नसीरा बेगम पत्नी अब्दुल वहाब एवं मंसूर अहमद, पुत्र अब्दुल वहाब तथा आफताब, पुत्र अब्दुल इनाम (गारंटर) मोहल्ला राईवाला, निसार रोड, मदनपुरी कॉलोनी, चिल्काना रोड, सहारनपुर, उ.प्र. (28.03.2008 को एनपीए वर्गीकृत) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 322585.01/- तथा अनरिकवर्ड ब्याज + अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज् 23.09.2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 30.06.2022 को रु. 908423.53 तथा अनरिकवर्ड ब्याज + अन्य चार्जेज सभी खाताओं में देय, के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सहारनपुर मुख्य शाखा, रेलवे रोड, सहारनपुर, उ.प्र.-247001 के चार्ज के अधीन होगा। आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्तियों का विवरणः

सम्पत्तिः श्रीमती नसीरा बेगम, पत्नी अब्दुल वहाब के स्वामित्व में जयशंकर पूरी कॉलोनी/मदनपूरी कॉलोनी, चिल्काना रोड, बोरिंग वाली गली, सहारनपुर, उ.प्र. में स्थित आवासीय मकान सं. 8/4067, खसरा नं. 1735

पूर्वः खलील का मकान, उत्तरः कल्लू का मकान,

पश्चिमः सिकन्दर का मकान दक्षिणः 15' चौडा रास्ता

तिथि: 17.01.2023 | स्थान: सहारनपुर

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

## Canara Bank 🗘

दिल्ली बाराखंभा रोड शाखा, 19 यूजीएफ नर्ड दिल्ली-110001, ई-मेलः cb1903G@canarabank.com

मांग सूचना [धारा 13(2)] कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के लिए

मैसर्स चावला बियरिंग्स (कर्जदार) इसके प्रोपराइटर श्री संजीव चावला के माध्यम से, पंजीकृत पता - 2401/212 फासिल रोड, श्रद्धानन्द मार्केट शाह गंज, चांदनी चौक, दिल्ली -110006

श्री संजीव चावला (कर्जदार सह बंधककर्ता) पुत्र स्वर्गीय श्री के एल चावला प्रोपराइटर मैसर्स चावला बियरिंग्स, निवासी 40ए/8 तृतीय तल अशोक नगर, नई दिल्ली-110018

इसके अलावाः पहली मंजिल ३ए/३५ य आईटी कॉलोनी, भिवंडी अलवर राजस्थान - 301019 श्रीमती संगीता चावला (गारंटर सह बंधककर्ता) पत्नी श्री संजीव चावला निवासी 40ए/8 तृतीय तल, अशोक नगर,

नई दिल्ली-110018 प्रिय महोदय,

www.readwhere.com

विषयः वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सुचना यह कि श्री संजीव चावला प्रोपराइटर मैसर्स चावला बियरिंग्स ने समय-समय पर हमारी बाराखंबा रोड शाखा, नई दिल्ली शाखा से निम्नलिखित ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की हैं:

सीमा		ऋण राशि तथा खाता सं.	30.11.2022 तक देयता	ब्याज की दर
फंड आधारित 1.		रु. 22,00,000∕- (90361400000148)	रु. 22,94,351.76/- तिथि 31.12.2022 तक तथा सभी लागतों, प्रभारों, व्ययों तथा हुए/होने वाले व्ययों सहित 13.75% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित देय	
	2.	रु. 4,17,000/- ( 90369170000010 )	रु. 1,71,733.43/- तिथि 31.12.2022 तथा सभी लागतों, प्रभारों, व्ययों तथा हुए/होने वाले व्ययों सहित 13.75% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित देय	
2	3.	रु. 48,00,000/- ( 90369180000012 )	रु. 4,59,097.35/- तिथि 31.12.2022 तथा सभी लागतों, प्रभारों, व्ययों तथा हुए/होने वाले व्ययों सहित 13.75% वार्षिक की दर से भावी ब्याज सहित देय	

उपर्युक्त ऋण/ऋण सुविधाएं हमारे पक्ष में आपके द्वारा निष्पादित प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर, नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित संपत्तियों के बंधक/दृष्टिबंधक के माध्यम से विधिवत रूप से प्रतिभूत हैं। चूंकि आप निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार अपर्न देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे थे, इसलिए बैंक ने 29.12.2022 को ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है। इसलिए, हम आपको कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत यह नोटिस जारी करते हैं, जिसमें आपसे 31.12.2022 तक की राशि रु. 66,25,185.54/-(रुपये छियासठ लाख पच्चीस हजार एक सौ पिचासी और चौवन पैसे मात्र) तथा अर्जित एवं अद्यतन ब्याज और अन्य व्ययों की संपूर्ण देयता का नोटिस की तारीख से साठ दिनों के भीतर निर्वहन करने का आह्वान किया जाता है। ऐसा न करने पर हम कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, आपको हमारी पूर्व सहमति के बिना अनुसूची में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति के साथ किसी भी तरीके से व्यवहार करने से रोका जाता है। यह कथित अधिनियम और∕या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमें उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शाखा रिकॉर्ड में आपका अंतिम ज्ञात पता उपलब्ध होने के कारण आपको रजिस्टर्ड पोस्ट पावती द्वारा मांग सूचना भी जारी किया गया था।

बंधक/दृष्टिबंधक संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है: मदवार बंधक/दृष्टिबंधक संपत्तियां - विस्तृत विवरण दिया जाना है

कर्जदार कंपनी मैसर्स चावला बियरिंग्स से संबंधित परिसर में पड़े व्यापार, स्टोर, पुर्जों आदि में बंधक स्टॉक एवं बुक डेट्स।

श्री संजीव चावला और श्रीमती संगीता चावला के नाम पर तिलक नगर, नई दिल्ली के पास अशोक नगर में दक्षिणी हिस्से में बनी 40ए/8, तीसरी मंजिल की संपत्ति का इक्विटेबल बंधक।

दिनांकः 05.01.2023 स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक दिनांक : 18.01.2023, स्थान : गुरूग्राम

punjab national bank पंजाब मैशनल बैंक ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING

कॉर्पोरेट कॉर्यालय : प्लॉट नं. 4. सैक्टर-10. द्वारका नई दिल्ली-110075

कते आईएम+ कैपिटल्स लिमिटेड

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकार्र

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुड़गाँव-122001, फोन: 0124-4788246

#### अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वस्ती, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मृत्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

			5 %			
क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	बंधक अचल सम्पत्तियों का विवरण/ स्वामित्व का नाम	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
ī	पीएनबी: लॉर्ज कॉर्पोरेट शाखा, गुरुग्राम (D. No-461500) मैसर्स एल एंड डी कंस्ट्रक्शन के, मुस्तिल नं. 23, किला नं. 3, ग्राम गंगुटाना, तहसील नंगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हिरयाणा – 123023 प्रोपराईटरः श्री शेर सिंह यादव पुत्र श्री राजपाल, लक्ष्य और दक्ष्य पब्लिक स्कूल, गाँव पलरा, गुड़गांव – 122001 क) श्रीमती कृष्णा देवी (गारंटर) पत्नी राज पाल सिंह, गाँव पलरा, गुड़गांव – 122001 ख) श्रीमती पूजा यादव (गारंटर) पत्नी श्री पवन यादव, लक्ष्य और दक्ष्य पब्लिक स्कूल, ग्राम पलरा, गुड़गांव – 122001	से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि 25 और 26.09.2019 सांकेतिक (गैर-सीमांकित)	खुला प्लॉट भूमि रैक्ट नं. 69, किला नं. 6/1/2/2/2 (1-17), कुल 1 कनाल 17 मरला गाँव बिलासपुर, तहसील मानेसर, जिला गुड़गाँव में रिधत, यह सम्पत्ति श्रीमती पूजा यादव पत्नी श्री पवन यादव के नाम पर है क्षेत्रफल 1119.25 वर्ग गज (सम्पत्ति आई डी PUNB82300061) खुला प्लॉट भूमि रैक्ट नं. 69, किला नं. 6/1/2/2/1 (1-10), रैक्ट. नं. 68 किला नं. 10/1/2/1/2 (0-6) कुल 1 कनाल 16 मरला आधे हिस्से की सीमा तक अर्थात 18 मारला, गाँव बिलासपुर, तहसील मानेसर, जिला गुड़गाँव में रिधत, क्षेत्रफल 544.50 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री राजपाल के नाम पर है। (सम्पत्ति आई डी PUNB823000060) खुला प्लॉट मूमि रैक्ट. नं. 69 किला नं. 69, किला नं. 6/1/2/2/3 (1-17) कुल 1 कनाल 17 मारला, गाँव बिलासपुर, तहसील मानेसर, जिला गुड़गाँव में रिधत, यह सम्पत्ति श्री शेर सिंह (प्रोपराईटर) के नाम पर है। क्षेत्रफल	চ. 273.60 লাজ হ. 27.36 লাজ হ. 1,00,000/- হ. 133.29 লাজ হ. 13.33 লাজ হ. 1,00,000/- হ. 273.60 লাজ হ. 27.36 লাজ হ. 1,00,000/-	14.02.2023 पूर्वांह्र 11.00 बजे से अर्पांह्र 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
2	शाखा, सुशांत लोक-1, शाखा, गुरुग्राम (115210) श्री हरीश यादव पुत्र श्री राजबीर सिंह यादव, पलेट नं. ए-8/2, आववीं मंजिल, टावर नं. ए सागरकुंज सीजीएचएस लि., प्लॉट नं. जीएच 03, सेक्टर 9ए, गुरुग्राम हरियाणा-122001 श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री हरीश यादव, पलेट नं. ए-8/2, आववीं मंजिल, टावर नं. ए सागरकुंज सीजीएचएस लि., प्लॉट नं. जीएच 03, सेक्टर 9ए, गुरुग्राम हरियाणा, 122001 श्री राजबीर सिंह यादव पुत्र श्री गंगा राम यादव, पलेट नं. ए-8/2,, आववीं मंजिल, टावर नं. ए सागरकुंज सीजीएचएस लि., प्लॉट नं. जीएच 03, सेक्टर 9ए, गुरुग्राम हरियाणा, 122001	19.06.2021 से भविष्य का ब्याज और प्रभार इत्यादि 14-10-2021 सांकेतिक	1119.25 वर्ग गज, (सम्पत्ति आई डी PUNB82300062)  पलैट नं. ए-8/2, 8वां तल, टॉवर नं. ए, सागरकुंज सीजीएचएस लि., जीएच 03, सेक्टर ९ए, गुरुग्राम हरियाणा-122001 में स्थित, सुपर क्षेत्रफल 2056.47 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री हरीश यादव पुत्र श्री राजबीर यादव और श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री हरीश यादव के नाम पर है (सम्पत्ति आईडी PUNB82300088)	रु. 7.80 लाख	14.02.2023 पूर्वीह 11.00 वजे से अपीह 04.00 बजे	(दिनां क 31-03-2022 तक सोसायटी के रख-रखाव बकाया शुल्क के रूप में रू. 227837/- प्लस भविष्य के रखरखाव शुल्क भी)
3	पीएनबी: लॉर्ज कॉर्पोरेट शाखा, गुरुग्राम (DNO-461500) मैसर्स आर पी सिंह क्रशर एंड कॉन्स्ट. कं, ग्राम गंगुटाना, तहसील नंगल चौधरी, जिला, महेंद्रगढ़, हरियाणा — 123023 प्रोपराईटर: श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री रामकंवर, ग्राम गंगुटाना, तहसील नंगल चौधरी, जिला, महेंद्रगढ़, हरियाणा — 123023 और: मकान नं. 1, 1 / 49, ब्लॉक नं. 1, ग्राम पलरा, गुड़गांव — 122001 श्रीमती कृष्णा देवी (गारंटर) पत्नी राज पाल सिंह, मकान नं. 1, 1 / 49, ब्लॉक नं. 1, ग्राम पलरा, गुड़गांव — 122001	तक और भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि 26.09.2019 सांकेतिक	रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 741 वर्ग गज, रैक्ट नं. 34, किला नं. 24/2/1 (1-7), 24/3/2/1 (1-2), कुल 2 कनाल 9 मारला 1/2 हिस्से की सीमा तक (क्षेत्रफल 619.57 वर्ग मी.) सैक्टर 70 ए पारला, तहसील और जिला गुरूग्राम, हल्दीराम के पास, आशा देवी किराना स्टोर से जुड़ा, यह सम्पत्ति एस. राज पाल सिंह के नाम पर है। सम्पत्ति आईडी PUNB82300064  रिहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 242 वर्ग गज, रैक्ट नं. 34, किला नं. 24/2/1 (1-7), 24/3/2/1 (1-2), कुल 2 कनाल 9 मारला 1/6 हिस्से की सीमा तक (क्षेत्रफल 202.34 वर्ग मी.) सैक्टर 70 ए पारला, तहसील और जिला गुरूग्राम, हल्दीराम के पास, आशा देवी किराना स्टोर से जुड़ा, यह सम्पत्ति श्री राज पाल	হ. 72.00 লাজ হ. 7.20 লাজ	14.02.2023 पूर्वीह 11.00 बजे से अर्पाह 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

सिंह के नाम पर है। सम्पत्ति आईडी PUNB82300065

चौधरी के नाम पर है।

चौधरी के नाम पर है।

चौधरी के नाम पर है।

भूतल पर दुकान नं. 54, आम्रपाली व्यवसायिक कॉम्पलैक

सह को-ओपरेटिव हब, प्लॉट-जे, सैक्टर-2, आईएमर्ट

मोनसर, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित, (क्षेत्रफल 1328.99 वर्ग

फीट) एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, यह सम्पत्ति मोनिया

भूतल पर द्कान नं. 55, आम्रपाली व्यवसायिक कॉम्पलैक

सह को-ओपरेटिव हब, प्लॉट-जे, सैक्टर-2, आईएमर्ट

मोनसर, गुरूग्राम, हरियाणा में रिथत, (क्षेत्रफल 1303.57 वर्ग

फीट) एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, यह सम्पत्ति मोनिया

भूतल पर दुकान नं. 56, आम्रपाली व्यवसायिक कॉम्पलेक्स

सह को-ओपरेटिव हब, प्लॉट-जे, सैक्टर-2, आईएमटी

मोनसर, गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित, (क्षेत्रफल 1303.57 वर्ग

फीट) एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ, यह सम्पत्ति मोनिया

ई--नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्ते : बिक्री, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसे है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित 🔳 अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई—नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in देखें । (5) और, नीचे दिए गए क्यूआर कोड़ को स्कैन करने के बाद, यह बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट (https://pnbindia.in) पर नीलामी पृष्ठ पर प्रेषित करेगा। जहां ई-बिक्रे पोर्टल और बैंक के नीलामी पोर्टल पर ई-नीलामी पर रखी गई 📑 📆 संपत्तियों का विवरण उपलब्ध है। सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

(प्रवीन कुमार सम्मी) सम्पर्क नं. 8527977711, प्राधिकृत अधिकारी,

पंजाब नैशनल बैंक, प्रतिभूति लेनदार

4 पीएनबी फव्वारा चौक, गुरूग्राम

हरियाणा (प्रोपराईटर)

मैसर्स इक्विसेंशियल, 781, सेक्टर-17ए, गुड़गांव

श्रीमती मोनिया बौधरी पत्नी श्री नीरज चौधरी, निवासी

मकान नं. 781, सेक्टर-17ए, गुड़गांव, हरियाणा

23/04/2018

₹. 4,53,94,076/-

दिनांक 26.02.2018 से भविष्य का

ब्याज एवं अन्य प्रभार

05/10/2018







रु. 98.82 लाख

रु. 9.89 लाख

₹. 50,000/-

**v. 93.15** लाख

रु. 9.32 लाख

₹. 50,000/-

**v. 93.15** लाख

रु. 9.32 लाख

₹. 50,000/-

ज्ञात नहीं

ज्ञात नहीं

ज्ञात नहीं

07.02.2023

पूर्वोद्ध 11.00 बजे

से अपहि

04.00 बजे

07.02.2023

पूर्वोह्न 11.00 बजे

से अपीह

04.00 बजे

07.02.2023

पूर्वीक 11.00 बजे

से अपहि

04.00 बजे